

**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद बस्ती**

**दिनांक-27.05.2022**

**इच्छा मृत्यु माँगने वाली युवती को इंटरनेट कालिंग (वीओआईपी काल) के माध्यम से परेशान करने वाले अभियुक्त को थाना रुधौली पुलिस, साइबर सेल, सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही द्वारा किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री अम्बिका राम के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रुधौली श्री रामकृष्ण मिश्र, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 श्री दुर्विजय व प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री मजहर खान मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना रुधौली पर मु0अ0सं0 121/2022 धारा 506,507 IPC से सम्बंधित अभियुक्त राकेश चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी निवासी गोठवा थाना रुधौली जनपद बस्ती उम्र 21 वर्ष को आज दिनांक ग्राम बभनी मिश्र शराब भट्टी से 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

**1. राकेश चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी निवासी ग्राम गोठवा थाना रुधौली जनपद बस्ती ।**

**बरामदगी का विवरण-**

**1. एक अदद मोबाईल (घटना में प्रयुक्त) ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रुधौली पर मु0अ0सं0 121/2022 धारा 506,507 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । प्रार्थना पत्र में दिए गये मोबाईल नम्बर

व इंटरनेट नम्बर आदि की जाँच एवं अन्य विधिक कार्यवाही साइबर सेल तथा सर्विलांस टीम द्वारा की जा रही थी।

### **पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह फार्मैसी में डिप्लोमा किया है कोरोना टीका लगाने के दौरान अभियुक्त द्वारा मुकदमा से सम्बंधित पीड़िता का मोबाईल नम्बर प्राप्त किया जिससे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पीड़िता के मोबाईल नम्बर से बात करने लगा अभियुक्त ने पीड़िता को विवाह करने के लिए कहा जिसपर पीड़िता ने मना कर दिया जिससे गुस्सा होकर पीड़िता से अनजान बनकर इस व्हाट्सएप के वीओआईपी नम्बर से मैसेज करके गाली गलौज देने लगा और यह भी ध्यान रखा कि इस व्हाट्सएप के बातचीत से बिल्कुल भी पहचान न सके।

### **अपराध करने का तरीका-**

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक ऐप द्वारा फेक वीओआईपी नम्बर जनरेट करके वीओआईपी नम्बर के माध्यम से फेक व्हाट्सएप एकाउण्ट बनाकर पीड़िता व पीड़िता के परिवार को गाली गलौज व धमकी देता था। अभियुक्त को पूर्ण विश्वास था कि इस ऐप के जरिए व्हाट्सएप से मैसेज करने पर पुलिस उसे पकड़ नहीं पायेगी।

### **अनावरण करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक रुधौली श्री रामकृष्ण मिश्रा जनपद बस्ती।
2. प्रभारी सर्विलांस सेल उ०नि० श्री दुर्विजय कुमार जनपद बस्ती।
3. प्रभारी साइबर सेल उ०नि० श्री मजहर खान जनपद बस्ती।
4. उ०नि० श्री श्याम सुंदर थाना रुधौली जनपद बस्ती।
5. कां० संदीप कुमार साइबर, कां० दीपक कुमार, कां० मोहन यादव, कां० घनश्याम यादव सेल जनपद बस्ती।
6. कां० सत्येन्द्र कुमार, कां० हिन्दे आजाद सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।



